

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2023—कार्तिक 5 शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जॉन करीम कुन्म चांडी आत्मज श्री पुरामडथील ऑसफ चांडी, उम्र 74 वर्ष, निवासी-जेवियर हायर सेकेण्डरी स्कूल, सड़क 9, संत एंथोनी चर्च, शांति नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक पूर्ण नाम जॉन करीम कुन्म चांडी है, जो कि मेरे पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा लघु नाम जानी के चांडी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे जॉन करीम कुन्म चांडी आत्मज श्री पुरामडथील ऑसफ चांडी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जानी के चांडी
(Johnney K Chandy)
पिता-श्री पुरामडथील ऑसफ चांडी
(S/o-Shri Puramadathil Ouseph Chandy)
निवासी-जेवियर हायर सेकेण्डरी स्कूल,
सड़क-9, संत एंथोनी चर्च,
शांति नगर, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जॉन करीम कुन्म चांडी
(John Karim Kunnam Chandy)
पिता-श्री पुरामडथील ऑसफ चांडी
(S/o-Shri Puramadathil Ouseph Chandy)
निवासी-जेवियर हायर सेकेण्डरी स्कूल,
सड़क-9, संत एंथोनी चर्च,
शांति नगर, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी यादव आत्मजा श्री बबला यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी-रूम नं. 18, ब्लॉक 4, स्ट्रीट-एचएसए, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। मेरा वास्तविक नाम कुमारी यादव है। जो कि मेरे राशन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सलोमी साइमन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे कुमारी यादव आत्मजा श्री बबला यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सलोमी साइमन (Salomi Simon) पिता-श्री बबला यादव (D/o-Shri Babla Yadav) निवासी-रूम नं.-18, ब्लॉक-4, स्ट्रीट-एचएसए, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी यादव (Kumari Yadav) पिता-श्री बबला यादव (D/o-Shri Babla Yadav) निवासी-रूम नं.-18, ब्लॉक 4, स्ट्रीट-एचएसए, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नूरदीन पुवार आत्मज मोहम्मद सलीम, उम्र 43 वर्ष, निवासी-तमेर पारा, वार्ड नं. 30, हटरी बाजार, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम नूरदीन पुवार आ. मोहम्मद सलीम है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पैनकार्ड में मो. नूरदीन आ. सलीम, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नूरदीन दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे नूरदीन पुवार आत्मज मोहम्मद सलीम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
नूरदीन, मो. नूरदीन पिता-सलीम निवासी-तमेर पारा, वार्ड नं.-30, हटरी बाजार, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नूरदीन पुवार (Noordin Puwar) पिता-मोहम्मद सलीम (S/o-Mohammad Salim) निवासी-तमेर पारा, वार्ड नं.-30, हटरी बाजार, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किशन मिश्रा आत्मज श्री ईश्वर प्रसाद मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी शांतिनगर-शिवनगर वार्ड नं. 4 राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम किशन मिश्रा है जो कि मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में ग्राम चिरचारीकला स्थित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में कृष्णा प्रसाद व ग्राम ढाबा में स्थित भूमि के राजस्व अभिलेखों में लोकेश्वर प्रसाद दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे किशन मिश्रा आत्मज श्री ईश्वर प्रसाद मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
कृष्णा प्रसाद (Krishna Prasad), लोकेश्वर प्रसाद (Lokeshwar Prasad) पिता-श्री ईश्वर प्रसाद मिश्रा (S/o-Shri Ishwar Prasad Mishra) निवासी-शांतिनगर-शिवनगर, वार्ड नं.-4, राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	किशन मिश्रा (Kishan Mishra) पिता-श्री ईश्वर प्रसाद मिश्रा (S/o-Shri Ishwar Prasad Mishra) निवासी-शांतिनगर-शिवनगर, वार्ड नं.-4, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

NAME CHANGE

It is hereby notified for the information of all Authorities concerned and the public that. I Gita Sori wife of Shri Dilip Kumar, a resident of Block No. 138/B, I-NA Type, ward No. 08, Central T/Ship, P.O. Dalli Rajhara, Tahsil Dondi, District Balod, Pin 494669 (C. G.). Earlier my name was Geeta Devi. I have changed my name to the new name Gita Sori. I have submitted an affidavit to the competent authority regarding registering my changed new name in all my government and Semi government records, documents.

Hereafter I will be Known by the name Gita Sori wife of Shri Dilip Kumar in future for all purposes.

OLD NAME	NEW NAME
Geeta Devi W/o- Shri Dilip Kumar Add- Block No.-138/B, I-NA Type, ward No.-08, Central T/Ship, P.O.-Dalli Rajhara, Tahsil-Dondi, District- Balod (C. G.) Pin-494669	Gita Sori W/o- Shri Dilip Kumar Add- Block No.-138/B, I-NA Type, ward No.-08, Central T/Ship, P.O.- Dalli Rajhara, Tahsil-Dondi, District- Balod (C. G.) Pin-494669

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुज खरे आत्मज श्री वी. के. खरे, उम्र 37 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं. पी-26, अवन्ति गार्डन के पास, मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम अनुज खरे है, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे जन्म प्रमाण पत्र में सनु दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अनुज खरे आत्मज श्री वी. के. खरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सनु
(Sanu)
पिता-श्री वी. के. खरे
(S/o- V. K. Khare)
निवासी-प्लॉट नं.-पी-26,
अवन्ति गार्डन के पास,
मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनुज खरे
(Anuj Khare)
पिता-श्री वी. के. खरे
(S/o- V. K. Khare)
निवासी-प्लॉट नं.-पी-26,
अवन्ति गार्डन के पास,
मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वेंकट रमनम्मा ध. प. श्री रविचन्द्र रेड्डी, उम्र 33 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 13/ए, सड़क नं. 09, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। मेरा वास्तविक नाम वेंकट रमनम्मा है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र प्रवीण रेड्डी के दाखिला खारिज, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मेरा नाम रमना रेड्डी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती वेंकट रमनम्मा ध. प. श्री रविचन्द्र रेड्डी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रमना रेड्डी
(Ramana Reddy)
पति-श्री रविचन्द्र रेड्डी
निवासी-क्वा नं.-13/ए, सड़क नं.-09,
सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती वेंकट रमनम्मा
(Smt. Venkat Ramanamma)
पति-श्री रविचन्द्र रेड्डी
निवासी-क्वा नं.-13/ए, सड़क नं.-09,
सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दाम्मू चिन्ना चेन्नया आत्मज स्व. दाम्मू सुब्बय्या, उम्र 47 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. 28/ए, 27/एच. (न्यू), सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर 7, पोस्ट सिविक सेंटर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम दाम्मू चिन्ना चेन्नया आ. स्व. दाम्मू सुब्बय्या है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा आठवीं, दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में चिन्ना चन्नैया आ. D. Subaiyya, डी. सुबैया दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे दाम्मू चिन्ना चेन्नया आत्मज स्व. दाम्मू सुब्बय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

चिन्ना चन्नैया,
पिता-D Subbaiyya, डी. सुबैया
निवासी-ब्लाक नं.-28/ए, 27/एच. (न्यू),
सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर-7,
पोस्ट-सिविक सेंटर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दाम्मू चिन्ना चेन्नया
(Dammu Chinna Chennaiah)
पिता-स्व. दाम्मू सुब्बय्या
(S/o- Late Dammu Subbaiah)
निवासी-ब्लाक नं.-28/ए, 27/एच. (न्यू),
सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर-7,
पोस्ट-सिविक सेंटर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माया साहू आत्मजा श्री उपेंद्र कुमार साहू, उम्र 26 वर्ष, जाति तेली, निवासी-वार्ड 08, अहिवारा, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। मेरा तथा मेरे माता पिता का वास्तविक नाम माया साहू आ. उपेंद्र कुमार साहू, भाग्यवती साहू है जो कि हमारे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 10वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में माया आ. उपेंद्र माता भाग्यवती तथा कक्षा 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में माया आ. उपेंद्र साहू तथा माता भाग्यवती साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे माया साहू आत्मजा श्री उपेंद्र कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

माया
(Maya)
पिता-श्री उपेंद्र
(D/o-Shri Upendra),
उपेंद्र साहू
(Upendra Sahu),
माता-भाग्यवती
(M/o-Bhagyawati),
भाग्यवती साहू
(Bhagjawati Sahu),
निवासी-वार्ड-08, अहिवारा,
तहसील-अहिवारा,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

माया साहू
(Maya Sahu)
पिता-श्री उपेंद्र कुमार साहू
(D/o-Shri Upendra Kumar Sahu),
माता-श्रीमती भाग्यवती साहू
(M/o-Smt. Bhagyawati Sahu)
निवासी-वार्ड-08, अहिवारा,
तहसील-अहिवारा,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चंद्रशेखर साहू आत्मज श्री उपेंद्र कुमार साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी-वार्ड 08, अहिवारा, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम चंद्रशेखर साहू आ. उपेंद्र कुमार साहू तथा माता श्रीमती भाग्यवती साहू है, जो कि हमारे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची में चंद्र शेखर साहू Chandra Shekhar Sahu पिता उपेंद्र कुमार Upendra Kumar तथा माता भाग्यवती साहू (Bhagyavati Sahu) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे चंद्रशेखर साहू आत्मज श्री उपेंद्र कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
चंद्र शेखर साहू (Chandra Shekhar Sahu), पिता-श्री उपेंद्र कुमार (S/o-Shri Upendra Kumar) माता-श्रीमती भाग्यवती साहू (M/o- Smt. Bhagyavati Sahu), निवासी-वार्ड-08, अहिवारा, तहसील-अहिवारा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	चंद्रशेखर साहू (Chandrashekhar Sahu) पिता-श्री उपेंद्र कुमार साहू (S/o-Shri Upendra Kumar Sahu), माता-श्रीमती भाग्यवती साहू (M/o-Smt. Bhagyawati Sahu) निवासी-वार्ड-08, अहिवारा, तहसील-अहिवारा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार कोसरिया आत्मज श्री श्याम दास कोसरिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी-सतनामी पारा, ग्राम अकोलिखुर्द, तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ. ग.), वर्तमान निवासी-राखी तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरे पुत्र तथा मेरा व मेरी पत्नी का वास्तविक नाम दीपेश कुमार कोसरिया आ. संजय कुमार कोसरिया, मालती बाई कोसरिया है जो कि हमारे आधार कार्ड व मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के शालेय रिकार्ड, दाखिला पंजी व स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दीपेश कोसरे आ. संजय कोसरे व माता मालती कोसरे दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को दीपेश कुमार कोसरिया आत्मज संजय कुमार कोसरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
दीपेश कोसरे पिता-श्री संजय कोसरे माता-श्रीमती मालती कोसरे निवासी-सतनामी पारा, ग्राम-अकोलिखुर्द, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ. ग.) वर्तमान निवासी-राखी तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दीपेश कुमार कोसरिया (Deepesh Kumar Kosariya) पिता-श्री संजय कुमार कोसरिया (S/o- Shri Sanjay Kumar Kosariya) माता-श्रीमती मालती बाई कोसरिया (M/o- Smt. Malti Bai Kosariya) निवासी-सतनामी पारा, ग्राम-अकोलिखुर्द, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ. ग.) वर्तमान निवासी-राखी तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बनवाली केंवट आत्मज श्री बुधरू निषाद, उम्र 62 वर्ष, निवासी-ग्राम समोदा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरा वास्तविक नाम बनवाली केंवट आ. श्री बुधरू निषाद है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में बनवाली आ. बुधरू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे बनवाली केंवट आत्मज श्री बुधरू निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
बनवाली (Banvali) पिता-श्री बुधरू (S/o-Shri Budharu) निवासी-ग्राम-समोदा, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बनवाली केंवट (Banvali Kevat) पिता-श्री बुधरू निषाद (S/o-Shri Budharu Nishad) निवासी-ग्राम-समोदा, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, केवल राम पशीने आत्मज श्री बिहारी लाल पशीने, उम्र 71 वर्ष, जाति कलार, निवासी-ग्राम बोरतलाव तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम केवल राम पशीने है। पूर्व में मैं सेना में कार्यरत था। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम केवल राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे केवल राम पशीने आत्मज श्री बिहारी लाल पशीने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
केवल राम पिता-श्री बिहारी लाल पशीने निवासी-ग्राम-बोरतलाव तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	केवल राम पशीने पिता-श्री बिहारी लाल पशीने निवासी-ग्राम-बोरतलाव तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा (छ. ग.)

जांजगीर चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2023

रा. प्र. क्र. 3/ब-113/08-09
ग्राम-पोडीदल्हा

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार प्रारूप निर्देशन

क्रं./4405/अ.वि.अ./रीडर-02/2023.—

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | सार्वजनिक न्यास का नाम | — | अधोरपीठ जन सेवा अभेद आश्रम (पब्लिक ट्रस्ट)
पोडीदल्हा तहसील अकलतरा
जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.) |
| 2. | न्यास का कार्य | — | जन सेवा लोक कल्याणार्थ कार्य |
| 3. | न्यास का प्रमुख स्थान | — | पोडीदल्हा (जांजगीर-चांपा) |
| 4. | न्यास के कार्यकारी प्रबंधन्यासी | — | कपालिक धर्म रक्षितराम पोडीदल्हा |
| 5. | न्यासी के उत्तराधिकारी संबंधी नियम | — | बाबा कपालिक धर्म रक्षित राम के दिशा निर्देश
एवं ट्रस्ट के संविधान के तहत लोक कल्याण कार्य. |
| 6. | न्यासी परिवार न्यास की निधि | — | स्थापना निधि के रूप में 11000-00 रु. |
| 7. | न्यास के संबंध में प्रबंध न्यासी को सूचना देने का पता | — | कपालिक धर्मरक्षित राम आ. श्रीअधोरेष भगवान
राम व्यवस्थापक ट्रस्टी अधोर पीठ सेवा अभेद आश्रम
ट्रस्ट पोडीदल्हा तहसील-अकलतरा
जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) |

विक्रान्त कुमार अंचल
पंजीयक, एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर
मकान नम्बर-40, आनन्द नगर, रायपुर (छ. ग.) 492 006

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्रमांक/सी. जी./फार्मा/निर्वा/2023/267.— फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 23 के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, धारा 27 के अधीन कार्यकारिणी समिति के 3 सदस्यों एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई-दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न होने के पश्चात् नीचे लिखे गये पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित किया गया।

क्रमांक	पद	नाम
1.	अध्यक्ष	श्री अरूण कुमार मिश्रा
2.	उपाध्यक्ष	श्री राहुल तिवारी
3.	कार्यकारिणी सदस्य	1. डॉ. चंचल दीप कौर 2. श्री विजय पारख 3. श्री निकेश कुमार देवॉगन
4.	फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई-दिल्ली के प्रतिनिधि	डॉ. आनन्द महलवार

(उपरोक्त निर्वाचन फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19 (ए) के अधीन 6 निर्वाचित सदस्य- 1. श्री सन्दीप बजाज, 2. डॉ. आनन्द महलवार, 3. श्री अरूण कुमार मिश्रा, 4. श्री भगत राम शर्मा, 5. श्री निकेश कुमार देवॉगन, 6. श्री हितानन्द अग्रवाल।

फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19 (बी) के अधीन राज्य शासन द्वारा 5 मनोनीत सदस्य-1. डॉ. चंचल दीप कौर, 2. श्री विजय पारख, 3. श्री राहुल तिवारी, 4. श्री परमानन्द पटेल, 5. श्री मोहम्मद हाशिम

फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19(सी) के अधीन राज्य मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्वाचित- डॉ. राकेश गुप्ता

फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19(डी) के अधीन संचालक,
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य सेवायें- पदेन सदस्य

फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19(डीडी) के अधीन नियन्त्रक, खाद्य एवम् औषधि प्रशासन-पदेन सदस्य

फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 19(ई) के अधीन शासकीय विश्लेषक, खाद्य एवम् औषधि प्रशासन-पदेन सदस्य कुल 15 सदस्यों के मध्य सम्पन्न हुआ.)

डॉ. शेखर वर्मा

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल
रायपुर (छ. ग.)

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नम्बर-40, आनन्द नगर, रायपुर (छ. ग.) 492 006

क्रमांक/सी. जी./फार्मा/निर्वा/2023/267.— फार्मसी एक्ट 1948 (क्रमांक-8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन फार्मसी काउन्सिल के छः (6) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सिन्धु पैलेस, बी.टी.आई. ग्राउण्ड के सामने शंकर नगर रायपुर के हाल में दिनांक 13-04-2023 को मतगणना पूर्ण होने पर कुल 26 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	प्रत्याशियों के नाम	प्राप्त कुल मतों की संख्या
1.	ऐश्वर्य, रायपुर	3487
2.	अजय सिंह राजपूत, दुर्ग	3056
3.	आनंद महलवार, रायपुर	4484
4.	अरविन्द कुमार मिश्रा, रायपुर	124
5.	अरूण कुमार मिश्रा, रायपुर	5224
6.	भगत राम शर्मा, बिलासपुर	5051
7.	भोज कुमार साहू, दुर्ग	3496
8.	श्री धनंजय सिंह, दुर्ग	2518
9.	श्री दिव्यांश शर्मा, राजनांदगाँव	146
10.	हीरा शंकर साहू, दुर्ग	2893
11.	हितानन्द अग्रवाल, कोरबा	5289
12.	कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़	169
13.	लोकेन्द्र कुमार साहू, राजनांदगाँव	547
14.	लव प्रकाश देवगन, बिलासपुर	886
15.	नरेन्द्र कुमार धिल्लारे, दुर्ग	1743
16.	निकेश कुमार देवगन, धमतरी	4533
17.	नितेश कुमार कौशिक, कोरबा	855
18.	राहुल कुमार भेंडिया, बालोद	337
19.	राहुल वर्मा, रायपुर	3897
20.	रविकिशोर अग्रवाल, रायपुर	2497
21.	रितेश कुमार जैन, बिलासपुर	1064
22.	संदीप बजाज, रायपुर	5427
23.	शेखर वर्मा, बिलासपुर	191
24.	एस. प्रकाश राव, दुर्ग	2350
25.	श्रेयश वाडीभस्मे, राजनांदगाँव	58
26.	सूरज प्रताप सिंह, मुंगेली	3753
27.	वैभव शास्त्री, बिलासपुर	3888
28.	वन्दना देवगन, रायपुर	675
29.	विजेन्द्र कुमार दुर्ग	3409

मतगणना हेतु कुल 13183 मत प्राप्त हुए थे, जिनकी गणना के पश्चात् 900 मत अवैध पाये गये. फार्मसी एक्ट 1948 की धारा 19 के खण्ड (क) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के 6 (छः) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 13-04-2023 को सम्पन्न होने पर अन्तिम मतगणना के आधार पर मैं डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, निर्वाचन अधिकारी नीचे लिखे गये 6 (छः) सदस्यों को निर्वाचन में उनको प्राप्त कुल मतों की संख्या के आधार पर निर्वाचित घोषित करता हूँ:-

1.	श्री आनन्द महलवार -	4484	2.	श्री अरूण कुमार मिश्रा -	5224
3.	श्री भगत राम शर्मा -	5051	4.	श्री हितानन्द अग्रवाल -	5289
5.	श्री निकेश कुमार देवगन -	4533	6.	श्री संदीप बजाज -	5427

डॉ. सुरेन्द्र पामभोई
निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2023

क्रमांक/स्थापना-7/OF-01/P-2 /2023/3652.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2021 के परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग “मंत्रालय” नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 1-8/2023/15-1, दिनांक 17-08-2023 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशासित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षावधि पर सहकारिता विभाग अंतर्गत वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7 में सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-5 में उल्लेखित जिला में पदस्थ किया जाता है :-

क्रं. (1)	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित मुख्य सूची का क्रमांक (2)	अभ्यर्थी का नाम एवं पता (3)	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना स्थान/जिला (4)
1.	01	नुरसत सबा पिता-स्व. जे. डी ख्वाजा, एम.आई.जी. 01, दीनदयाल उपाध्याय नगर, चिखली, राजनांदगांव (छ. ग.) पिन कोड-491668	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव
2.	02	श्री माधव पिता-श्री साहेबराम, मकान नं. 01, वार्ड क्र. 01, ग्राम पोस्ट-कोडातराई, तहसील-पुसौर जिला-रायगढ़ (छ. ग.) पिन कोड-496100	कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
3.	03	रूपा चौधारी पिता-स्व. श्री भानुप्रताप चौधरी, ग्राम पोस्ट-नंदेली जिला-रायगढ़ (छ. ग.) पिन कोड-496001	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा
4.	04	श्री टीकम सिंह पिता-श्री गीताराम, ग्राम-पचरी, पो. आ.-मिस्टा, तहसील-नवागढ़, थाना-शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.), पिन कोड-495557	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सरगुजा
5.	05	श्री त्रिलोक चन्द्र रावटे पिता-श्री भीखम सिंह रावटे, मकान नं. 99, वार्ड क्र. 08, ग्राम-बोरगांव, पोस्ट-ठेमावुर्जुग, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.) पिन कोड-491228	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कवर्धा
6.	06	श्री नवीन कुमार सिंह पिता-श्री रामनारायण सिंह, ग्राम-जगतपुर, पोस्ट-मदनपुर, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ. ग.) पिन कोड-497333	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सूरजपुर
7.	07	श्री प्रवीण कुमार पिता-स्व. श्री बोधन लाल, मकान नं. 236, वार्ड क्र. 02, बड़गांव चारभाठा, पोस्ट-मदरूम, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन कोड- 491661	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर

2. उपरोक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी.

3. उक्त परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के अनुसार “किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा.”
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को जब प्रशासन अकादमी रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा तब वे अपनी उपस्थिति कार्यालय/जिले से प्रशासकीय अकादमी निमोरा, रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें।
6. परिवीक्षाधीन कर्मचारी को परिवीक्षावधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर कर्मचारी को अकादमी के अगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे।
7. परिवीक्षाधीन कर्मचारी को अपनी परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, जो व्यक्ति उपयुक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में समाप्त की जा सकेंगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षावधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।
8. (1) इन कर्मचारियों की परिवीक्षावधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत निर्धारित की जायेगी।
(2) पुलिस चरित्र सत्यापन एवं अन्य मामलों में किसी भी प्रकार का दोषारोपण पाये जाने पर कर्मचारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9. उपर्युक्त पदाभिलाषियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. उपर्युक्त पदाभिलाषियों द्वारा की गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
11. परिवीक्षाधीन कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षावधि को सफलतापूर्वक पार न करने की दशा में परिवीक्षावधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। बांड का प्रारूप संलग्न है।

“प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण, नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।”

रमेश कुमार शर्मा
पंजीयक